



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 4 जनवरी, 2022

पौष 14, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

चिकित्सा अनुभाग-2

संख्या 01/सेक-2-पाँच-2022

लखनऊ, 4 जनवरी, 2022

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0-4

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, "उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020" को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं :-

उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2021

1-(1) यह नियमावली "उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा (प्रथम संशोधन) संक्षिप्त नाम और नियमावली, 2021" कही जायेगी। प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2-"उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020", जिसे आगे उक्त नियम-5 का नियमावली कहा गया है, में नियम 5 के उपनियम (1) में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान संशोधन खण्ड (तीन) और (चार) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्:-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान खण्ड	एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(तीन) परामर्शदाता (स्तर-3) ऐसे व्यक्तियों, जो चिकित्सा अधिकारी ग्रेड-2 (एल-2) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त हों और भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 07 (सात) वर्ष की सेवा पूर्ण कर लिये हों, में से चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।	(तीन) परामर्शदाता (स्तर-3) ऐसे व्यक्तियों, जो चिकित्सा अधिकारी ग्रेड-2 (एल-2) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त हों और भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में छः (6) वर्ष की सेवा पूर्ण कर लिये हों, में से चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
(चार) संयुक्त निदेशक (स्तर-4) ऐसे व्यक्तियों, जो परामर्शदाता (एल-3) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त हों और भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 06 (छः) वर्ष की सेवा पूर्ण कर लिये हों, या कम संख्या-5 (1) (दो) एवं 5 (1) (तीन) में उल्लिखित पदों पर सभी को मिलाकर तेरह वर्ष की सेवा पूर्ण कर लिये हों, में से चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।	(चार) संयुक्त निदेशक (स्तर-4) ऐसे व्यक्तियों, जो परामर्शदाता (एल-3) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त हों और भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात (7) वर्ष की सेवा पूर्ण कर लिये हों, या कम संख्या-5 (1) (दो) एवं 5 (1) (तीन) में उल्लिखित पदों पर सभी को मिलाकर तेरह (13) वर्ष की सेवा पूर्ण कर लिये हों, में से चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

परिशिष्ट-2 का संशोधन

3-उक्त नियमावली के परिशिष्ट-2 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान खण्ड के क्रम संख्या 6 और 7 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्:-

स्तम्भ-1				स्तम्भ-2			
विद्यमान खण्ड				एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड			
क्र० सं०	विशेषज्ञ	भाग-क अपेक्षित स्नातकोत्तर उपाधि	भाग-ख अपेक्षित स्नातकोत्तर डिप्लोमा अर्हता	क्र० सं०	विशेषज्ञ	भाग-क अपेक्षित स्नातकोत्तर उपाधि विषयक अर्हता	भाग-ख अपेक्षित स्नातकोत्तर डिप्लोमा विषयक अर्हता
6	जनरल सर्जन	एम0एस0 (जनरल सर्जन)	जनरल सर्जरी में डिप्लोमा	6	जनरल सर्जन	एम0एस0 (जनरल सर्जन)	विलुप्त
7	जनरल फिजीशियन	एम0डी0 (जनरल मेडिसिन) एम0डी0 (फैमिली मेडिसिन) एम0डी0 (इमर्जेंसी मेडिसिन) एम0डी0 (गेरियाट्रिक्स)	जनरल मेडिसिन में डिप्लोमा इमर्जेंसी मेडिसिन में डिप्लोमा डाएबीटोलॉजी में डिप्लोमा ट्यूबरक्लोसिस एवं चेस्ट डिजीज में डिप्लोमा	7	जनरल फिजीशियन	एम0डी0 (जनरल मेडिसिन) एम0डी0 (फैमिली मेडिसिन) एम0डी0(इमर्जेंसी मेडिसिन) एम0डी0 (गेरियाट्रिक्स) एम0डी0(पल्मोनरी मेडिसिन) एम0डी0 (रिस्पैरेटरी मेडिसिन) एम0डी0 (इन्टरनल मेडिसिन) एम0डी0 ट्यूबरक्लोसिस एवं चेस्ट डिजीज	जनरल मेडिसिन में डिप्लोमा इमर्जेंसी मेडिसिन में डिप्लोमा डाएबीटोलॉजी में डिप्लोमा

आज्ञा से,

अमित मोहन प्रसाद,

अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 01/Sec-2-Five-2022, dated January 4, 2022 :

No. 01/Sec-2-Five-2022

Dated Lucknow, January 4, 2022

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending "The Uttar Pradesh Medical and Health Services Rules, 2020":-

THE UTTAR PRADESH MEDICAL AND HEALTH SERVICES (FIRST AMENDMENT) RULES, 2021

1. (1) These rules may be called "The Uttar Pradesh Medical and Health Services (First Amendment) Rules, 2021." Short Title and Commencement

(2) They shall come into force at once.

2. In "The Uttar Pradesh Medical and Health Services Rules, 2020", hereinafter referred to as said rules, in sub-rule (1) of the rule 5 *for* existing clause (iii) and (iv) set out in Column-1 below, the clause as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:- Amendment of rule 5

Column-1	Column-2
<i>Existing Clause</i>	<i>Clause as hereby Substituted</i>
(iii) Consultant (Level 3) By promotion through the Selection Committee from amongst persons who are substantively appointed to the posts of Medical Officer Grade – II (L2) and have completed seven (7) years of service as such on the first day of the year of recruitment.	(iii) Consultant (Level 3) By promotion through the Selection Committee from amongst persons who are substantively appointed to the posts of Medical Officer Grade – II (L2) and have completed six (6) years of service as such on the first day of the year of recruitment.
(iv) Joint Director (Level 4) By promotion through the Selection Committee from amongst persons who are substantively appointed to the posts of Consultant (L3) and have completed six (6) years of service as such, or, taken together have completed thirteen (13) years of service on the posts mentioned at serial number 5(1) (ii) and 5(1) (iii) on the first day of the year of recruitment.	(iv) Joint Director (Level 4) By promotion through the Selection Committee from amongst persons who are substantively appointed to the posts of Consultant (L3) and have completed seven (7) years of service as such, or, taken together have completed thirteen (13) years of service on the posts mentioned at serial number 5 (1) (ii) and 5 (1) (iii) on the first day of the year of recruitment.

3. In "Appendix-2" of the said rules, Sl. no. 6 and 7 of existing clause set out in Column-1 below, the clause as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:- Amendment of Appendix-2

Column-1				Column-2			
<i>Existing Clause</i>				<i>Clause as hereby Substituted</i>			
Sl. no.	Specialist	Section-A Requisite Post Graduate Degree Qualification	Section-B Requisite Post Graduate Diploma Qualification	Sl. no.	Specialist	Section-A Requisite Post Graduate Degree Qualification	Section-B Requisite Post Graduate Diploma Qualification
6	General Surgeon	M.S. (General Surgeon)	Diploma in General Surgery	6	General Surgeon	M.S. (General Surgeon)	Destructed

Column-1				Column-2			
<i>Existing Clause</i>				<i>Clause as hereby Substituted</i>			
7	General Physician	M.D. (General Medicine) M.D. (Family Medicine) M.D. (Emergency Medicine) M.D. (Geriatrics)	Diploma in General Medicine Diploma in Emergency Medicine Diploma in Diabetology Diploma in Tuberculosis & Chest Diseases	7	General Physician	M.D. (General Medicine) M.D. (Family Medicine) M.D. (Emergency Medicine) M.D. (Geriatrics) M.D. (Pulmonary Medicine) M.D. (Respiratory Medicine) M.D. (Internal Medicine) M.D. (Tuberculosis & Chest Diseases)	Diploma in General Medicine Diploma in Emergency Medicine Diploma in Diabetology

By order,
AMIT MOHAN PRASAD,
Apar Mukhya Sachiv.